

होली (Holi) वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलायी जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर-गुलाल इत्यादि फेंकते हैं, ढोल बजा कर होली के गीत गाये जाते हैं और घर-घर जा कर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूल कर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। पहले, रंग प्राकृतिक उत्पादों से बनाये जाते थे। आजकल, हम होली के दौरान रंग बनाने के लिए अत्यधिक जहरीले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ रसायन विशुद्ध रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए होते हैं।

बैसागु महोत्सव असम का एक लोकप्रिय त्यौहार है। असम के इस प्रसिद्ध त्यौहार को अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जो कि बोरो जनजाति द्वारा असमिया कैलेंडर के अनुसार बेशाक का महिना है। इस त्यौहार को नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार के पहले दिन लोग अपनी गायों की पूजा करते हैं। इस त्यौहार में परिवार के युवा अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे देवता को चावल के अलावा मद्य और माँस भी चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग असम के प्रसिद्ध नृत्य में शामिल हो जाते हैं। इस त्यौहार पर बलि चढ़ाने की भी प्रथा है। आजकल बलि की प्रथा कम हो रही है।

राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव अमेरिका का एक वसंत उत्सव है। 27 मार्च 1912 को टोक्यो शहर के मेयर युकिओ ओज़ाकी से, वॉशिंगटन शहर में डीसी के मेयर ओज़ाकी ने जापानी चेरी के पेड़ों का उपहार, बढ़ते दोस्ती को बढ़ाने के लिए पेड़ों को दान दिया संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच और दोनों देशों के बीच निरंतर करीबी रिश्ते का भी जन्म मनाते हैं। बड़े और रंगीन हीलियम गुब्बारे, बैंड, परेड, संगीत उत्सव के कुछ हिस्से हैं।

